




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 60]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, मार्च 1, 2001/फाल्गुन 10, 1922

No. 60]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 1, 2001/PHALGUNA 10, 1922

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2001

फा. सं. 18-3/2000-एन.एस.-II. — भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना सं. 2/14/89-एन.एस.-II, तारीख 7 जून, 1989 द्वारा यथा अधिसूचित सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों की जमा योजना, 1989 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. उक्त योजना में, जमाओं पर ब्याज से संबंधित पैरा 6 में,

(क) उप-पैरा (क) में, दूसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह भी कि इस योजना के अनुसार 1 मार्च, 2001 को या उसके पश्चात् की गई जमाओं पर 8.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगेगा।”;

(ख) उप-पैरा (ख) में, दूसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह भी कि जहां खाते को तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् जारी रखा गया हो, चाहे यह 1 मार्च, 2001 से पहले हो या उसके पश्चात् किसी भी समय हो, ऐसे खाते में अधिशेष रकम पर 1 मार्च, 2001 से ही या तीन वर्ष की समाप्ति पर, इसमें जो भी पश्चात्पूर्ति हो, 8.5 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा।”;

(ग) उप-पैरा (ग) में दूसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह भी कि जहां खाते में जमा रकम पर उप-पैरा (क) या उप-पैरा (ख) के तीसरे परन्तुक के निबन्धनों के अनुसार 8.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगता हो, वहां अनाहत ब्याज पर 1 मार्च, 2001 से ही या तीन वर्ष की समाप्ति की तारीख से, इसमें जो भी पश्चात्पूर्ति हो, 8.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगेगा।”;

2. यह संशोधन 1 मार्च, 2001 से ही प्रभावी होगा।

सूर्या मैती, अवसस्चिव

टिप्पणी : इस संशोधन से पूर्व 7-6-89 को अधिसूचित जमा योजना का संशोधन अधिसूचना सं. 2/14/89-एन.एस.-II, तारीख 10-8-1989, सं. 2/14/89-एन.एस.-II, तारीख 12-10-1989, सं. 2/14/89-एन.एस.-II, तारीख 9-3-1990, सं. 15/1/93-एन.एस.-II, तारीख 15-3-1993, और सं. 2/31/98-एन.एस.-II, तारीख 1-1-1999 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2001

F.No. 18-3/2000-NS.II.- The Government of India hereby makes the following amendment in the Deposit Scheme for Retiring Government Employees, 1989 as notified in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) notification number 2/14/89-NS.II, dated the 7th June, 1989, namely:-

1. In the said Scheme, In paragraph 6, relating to Interest on Deposits, -

(a) in sub-paragraph (a), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely :-

"Provided also that the deposits made in accordance with this Scheme on or after the 1st day of March, 2001 shall carry interest at the rate of 8.5 per cent. per annum.";

(b) In sub-paragraph (b), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely :-

"Provided also that where the account is continued on expiry of three years, whether prior to the 1st day of March, 2001 or at any time thereafter, the balance amount in such account shall earn interest at the rate of 8.5 per cent. per annum on and from the 1st day of March, 2001 or the date of expiry of three years, whichever is later.";

(c) in sub-paragraph (d), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely :-

"Provided also that where the deposits in an account earn interest at the rate of 8.5 per cent. per annum in terms of the third proviso to sub-paragraph (a) or third proviso to sub-paragraph (b), the interest on the undrawn interest shall be at the rate of 8.5 per cent. per annum on and from the 1st day of March, 2001 or the date of expiry of three years, whichever is later."

2. This amendment shall take effect on and from the 1st day of March, 2001.

SURYA MAITI, Under Secy.

Note : Prior to this amendment, the Deposit Scheme notified on the 7th June, 1989 was amended vide notifications No. 2/14/89-NS.II, dated the 10th August, 1989, No. 2/14/89-NS.II, dated the 12th October, 1989, No. 2/14/89-NS.II, dated the 9th March, 1990, No. 15/1/93-NS.II, dated the 15th March, 1993 and No. 2/31/98-NS.II, dated the 1st January, 1999.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2001

फा. सं. 18-3/2000-एन.एस.-II. — भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना सं. 2/19/89-एन.एस.-II, तारीख 12 दिसम्बर, 1990 द्वारा यथा अधिसूचित सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की जमा योजना, 1991 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. उक्त योजना में, जमाओं पर ब्याज से संबंधित पैरा 6 में,—

(क) उप-पैरा (क) में, दूसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तुक यह भी कि इस योजना के अनुसार 1 मार्च, 2001 को या उसके पश्चात् की गई जमाओं पर 8.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगेगा।”

(ख) उप-पैरा (ख) में, दूसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह भी कि जहां खाते को तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् जारी रखा गया हो, चाहे यह 1 मार्च, 2001 से पहले हो या उसके पश्चात् किसी भी समय हो, ऐसे खाते में अधिशेष रकम पर तीन वर्ष की समाप्ति की तारीख से ही 8.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगेगा।”

(ग) उप-पैरा (घ) में, दूसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह भी कि जहां खाते में जमाओं पर उप-पैरा (क) या उप-पैरा (ख) के तीसरे परन्तुक के निबन्धनों के अनुसार 8.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगता हो, वहां अनाहत ब्याज पर 1 मार्च, 2001 से ही या तीन वर्ष की समाप्ति की तारीख से, इसमें जो भी पश्चात्कर्ती हो, 8.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगेगा।”

2. यह संशोधन 1 मार्च, 2001 से ही प्रभावी होगा।

सूर्या मैत्री, अवर सचिव

टिप्पणी : इस संशोधन से पूर्व 12-12-1990 को अधिसूचित जमा योजना का संशोधन अधिसूचना सं. 15/10/91-एन.एस.-II, तारीख 22-4-1991, सं. 2/19/89-एन.एस.-II, तारीख 23-4-1991, सं. 15/1/93-एन.एस.-II, तारीख 15-3-1993, और सं. 2/31/98-एन.एस.-II, तारीख 1-1-1999, द्वारा किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2001

F.No. 18-3/2000-NS.II.- The Government of India hereby makes the following amendment in the Deposit Scheme for Retiring Employees of Public Sector Companies, 1991 as notified in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) notification number 2/19/89-NS.II, dated the 12th December, 1990, namely:-

1. In the said Scheme, in paragraph 6, relating to Interest on Deposits, -

(a) in sub-paragraph (a), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely :-

“Provided also that the deposits made in accordance with this Scheme on or after the 1st day of March, 2001 shall carry interest at the rate of 8.5 per cent. per annum.”;

(b) in sub-paragraph (b), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely :-

"Provided also that where the account is continued on expiry of three years, whether prior to the 1st day of March, 2001 or at any time thereafter, the balance amount in such account shall earn interest at the rate of 8.5 per cent. per annum on and from the date of expiry of three years.";

- (c) In sub-paragraph (d), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely :-

"Provided also that where the deposits in an account earn interest at the rate of 8.5 per cent. per annum in terms of the third proviso to sub-paragraph (a) or third proviso to sub-paragraph (b), the interest on the undrawn interest shall be at the rate of 8.5 per cent. per annum on and from the 1st day of March, 2001 or the date of expiry of three years, whichever is later."

2. This amendment shall take effect on and from the 1st day of March, 2001.

SURYA MAITI, Under Secy.

Note : Prior to this amendment, the Deposit Scheme notified on the 12th December, 1990 was amended vide notification No. 15/10/91-NS.II, dated the 22nd April, 1991, No. 2/19/89-NS.II, dated the 23rd April, 1991, No. 15/1/93-NS.II, dated the 15th March, 1993 and No. 2/31/98-NS.II, dated the 1st January, 1999.